

No. of Printed Pages : 4

BPCC-103

**B. A. (HONOURS) PSYCHOLOGY
(BAPCH)**

Term-End Examination

December, 2023

**BPCC-103 : PSYCHOLOGY OF INDIVIDUAL
DIFFERENCES**

Time : 2 Hours

Maximum Marks : 50

Note : *Attempt any **five** questions selecting at least **two** questions from each Section. Answer each question in about **300** words. All questions carry equal marks.*

Section—I

1. Explain the psychodynamic theories of personality. 10
2. Define aptitude. Explain the relationship between aptitude and intelligence. 4+6
3. Discuss Sternberg's triarchic theory of intelligence. 10

P. T. O.

4. Explain the differences between Indian and Western Psychology. 10

Section—II

5. What is self-enhancement ? Explain the theory of social comparison processes. 3+7
6. Explain various approaches to creativity. 10
7. Describe drive reduction and optional arousal theories of motivation. 5+5
8. Write short notes on the following in about **150** words each :
- (a) Skinner's reinforcement schedule 5
 - (b) Five-factor theory 5

BPC-103

बी. ए. (ऑनर्स) मनोविज्ञान

(बी. ए. पी. सी. एच.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2023

बी.पी.सी.सी.-103 : व्यक्तिगत भिन्नताओं का मनोविज्ञान

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग से कम-से-कम दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

भाग—I

1. व्यक्तित्व के मनोवेगीय सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए। 10

2. अभिक्षमता को परिभाषित कीजिए। अभिक्षमता एवं बुद्धि के बीच सम्बन्ध की व्याख्या कीजिए। 4+6
3. स्टर्नबर्ग के बुद्धि क त्रिचापीय सिद्धान्त पर चर्चा कीजिए। 10
4. भारतीय मनोविज्ञान एवं पश्चिमी मनोविज्ञान में अन्तर की व्याख्या कीजिए। 10

भाग—II

5. आत्म-वृद्धि क्या है ? सामाजिक तुलना प्रक्रियाओं के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। 3+7
6. सृजनात्मकता के विभिन्न उपागमों की व्याख्या कीजिए। 10
7. अभिप्रेरणा के अन्तर्नोद कमी सिद्धान्त एवं इष्टतम उद्वेलन सिद्धान्त का वर्णन कीजिए। 5+5
8. निम्नलिखित पर लगभग 150 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (क) स्किनर की प्रबलन सूची 5
 - (ख) पंच कारक सिद्धान्त 5